

अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन

अखिल भारतीय समिति की बैठक

रविवार, 29 अगस्त 2021; वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से

अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की अखिल भारतीय समिति की बैठक 29 अगस्त 2021 को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। यह इस समिति की वर्तमान सत्र की द्वितीय बैठक थी। बैठक का सभापतित्व सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोवर्धन प्रसाद गाड़ोदिया ने किया।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे।

श्री गोवर्धन प्रसाद गाड़ोदिया	श्री सीताराम शर्मा	श्री नंदलाल रूंगटा	डॉ. हरिप्रसाद कानोड़िया
श्री रामअवतार पोद्दार	श्री प्रहलाद राय अग्रवाल	श्री संतोष सराफ	श्री भानीराम सुरेका
श्री पवन गोयनका	श्री पवन सुरेका	डॉ. श्याम सुन्दर हरलालका	श्री संजय हरलालका
श्री गोपाल अग्रवाल	श्री सुदेश अग्रवाल	श्री बसंत कुमार मित्तल	श्री दामोदर प्रसाद बिदावतका
श्री ओमप्रकाश खंडेलवाल	श्री अशोक कुमार मूँधड़ा	डॉ. सुभाष अग्रवाल	श्री महेश जालान
श्री नन्द किशोर अग्रवाल	श्री राजकुमार पुरोहित	श्री नन्द किशोर अग्रवाल	श्री लक्ष्मीपत भूतोड़िया
श्री शिव कुमार लोहिया	श्री आत्माराम सोन्धलिया	श्री कमल कुमार नोपानी	श्री मधुसूदन सीकरिया
श्री नंदलाल सिंघानिया	श्री दिनेश जैन	श्री पवन शर्मा	श्री योगेश तुलस्यान
श्री अशोक केडिया	श्री शिव कुमार टेकरीवाल	श्री जयदयाल अग्रवाल	श्री भागचंद पोद्दार
श्री जगदीश गोलपुरिया	श्री बाबूलाल गग्गड़	श्री बृजमोहन लाल अग्रवाल	श्री कौशल राजगढ़िया
श्री अशोक केडिया	श्री मनमल गुप्ता	श्री अशोक गुप्ता	श्री अशोक तुलस्यान
श्री बजरंगलाल अग्रवाल	श्री विष्णु दयाल अग्रवाल	श्री सांवरलाल शर्मा	श्री राधेश्याम बंसल
श्री जुगल किशोर मारु	श्री बसंत गाड़ोदिया	श्री अरुण प्रकाश मल्लावत	श्री महावीर मनक्सिया
श्री पवन पोद्दार	श्री राजकुमार केडिया	श्री शिवहरि बंका	श्री अरुण बकरेवाल
श्री अरुण अग्रवाल	श्री अशोक अग्रवाल	श्री बाबूलाल अग्रवाल	श्री भैरु शर्मा
श्री विनोद किला	श्री राजीव कुमार अग्रवाल	श्री धर्मचंद जैन (मोदी)	श्री प्रहलाद राय गोयनका
श्री ओमप्रकाश पोद्दार	श्री पवन बंसल	श्री राजेन्द्र मेहरिया	श्री गोपी धुवालिया
श्री लक्ष्मण महिपाल	श्री नारायण प्रसाद अग्रवाल	श्री राजकुमार मिश्रा	श्री रतन लाल बंका
श्री संतोष जैन	श्री राजीव केजरीवाल	श्री जय किशन बजाज	श्री मणिक दमानी
श्री अनिल अग्रवाल	श्री बिजय डोकानियाँ	श्री बी.के. टिबड़ेवाल	श्री प्रदीप भुवालका
श्री सत्यनारायण गुप्ता	श्री सुरेश पोद्दार	श्री रमेश शाह	श्री विजय मित्तल
श्री बिनोद कुमार लोहिया	श्री रामगोपाल पोद्दार	श्री रोहित कुमार लिह्ला	श्री रवि शंकर शर्मा
श्री पवन शर्मा	श्रीमती सरोज जालान	श्रीमती उर्मिला दिनोदिया	श्रीमती उर्मिला बंका
श्रीमती सुषमा अग्रवाल	श्रीमती कंचन केजरीवाल	श्रीमती सुषमा लाखोटिया	

निम्नलिखित ने अनुपस्थिति की सूचना दी।

श्री अशोक जालान	श्री गोविन्द अग्रवाल	श्री पुरुषोत्तम सिंघानिया	श्री ओमप्रकाश अग्रवाल
श्री सुरेन्द्र कुमार डालमिया			

बैठक में सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोवर्धन प्रसाद गाड़ोदिया ने सभी उपस्थितों का स्वागत किया और जन्माष्टमी की बधाइयाँ दी। उन्होंने कहा कि आज समय की माँग है कि हम अपना समय , ऊर्जा और संसाधन कोरोना-टीकाकरण पर केन्द्रित करें – स्वयं टीका लें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। टीकाकरण का कोई विकल्प नहीं है। कोरोना को हराने के लिए सघन टीकाकरण अभियान जरूरी है और इसमें हम सबको अपनी भूमिका निभानी है, यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है।

श्री गाड़ोदिया ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते छोटे व्यापारियों और दैनिक धंधे, मजदूरी करनेवाले की आर्थिक स्थिति पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और वर्तमान परिस्थितियों में सभी संसाधनहीन लोगों की सेवा और सहायता करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में सम्मेलन की शाखायें टीकाकरण में सक्रिय सहयोग कर रही हैं – अकेले गौहाटी शाखा ने ही पैंतीस हजार से अधिक लोगों को कोरोना टीका के दोनों डोज लगवाये हैं।

सम्मेलन के हालिया कार्यकलापों की चर्चा करते हुए श्री गाड़ोदिया ने कहा कि यद्यपि पूरे देश के साथ-साथ सम्मेलन की गतिविधियाँ भी कोरोना से प्रभावित हुई हैं , सभी बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। इनके अतिरिक्त कोरोना –संक्रमण से बचाव और उपचार आदि के विषय में सदस्यों की जानकारी और सतर्कता बढ़ाने हेतु लब्धप्रतिष्ठ विशेषज्ञों के साथ वेबिनार आयोजित किए गए हैं। इन वेबिनारों के आयोजन हेतु उन्होंने सम्मेलन के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री श्री शिव कुमार लोहिया एवं स्वास्थ्य उपसमिति के चेयरमैन श्री पवन जालान का आभार ज्ञापित किया।

संगठन-विस्तार के विषय में बताते हुए श्री गाड़ोदिया ने कहा कि वर्तमान सत्र में झारखंड, बिहार और कर्नाटक की प्रादेशिक शाखाओं की अग्रणी एवं प्रशंसनीय भूमिका रही है। साथ ही , उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र में भी सदस्य –संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कार्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के अन्तर्गत गतिविधियाँ करनेवाली संस्था के रूप में सम्मेलन के पंजीकरण को स्वीकृति दी है , जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्वीकृति हेतु सक्रिय प्रयासों के लिए उन्होंने राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री श्री गोपाल अग्रवाल की प्रशंसा की।

राष्ट्रीय महामंत्री श्री संजय हरलालका ने अखिल भारतीय समिति की पिछली बैठक (27 दिसम्बर 2020; वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से) का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। उन्होंने सम्मेलन की हालिया गतिविधियों पर 'महामंत्री की रपट' भी प्रस्तुत की।

सम्मेलन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सीताराम शर्मा ने कहा कि अत्यंत हर्ष का विषय है कि पूरे देश में सम्मेलन की शाखायें कोरोना –राहत सेवाकार्य में यथासम्भव योगदान कर रही हैं। नये –नये कार्यक्रम लिए जा रहे हैं और उनका सफलतापूर्वक सम्पादन किया जा रहा है। उन्होंने सम्मेलन के कार्यक्रमों से महिलाओं और युवकों को जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री शर्मा ने कहा कि केन्द्रीय सम्मेलन एवं इसकी प्रादेशिक शाखाओं के बीच संवाद की स्थिति बेहतर हुई है और इसका पूरा श्रेय राष्ट्रीय अध्यक्ष गोवर्धन जी की सक्रियता को जाता है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के इतिहास को लिपिबद्ध करने के अधूरे पड़े कार्य को पूरा करना चाहिए जिससे नये जुड़नेवाले समाजबंधु और आनेवाली पीढ़ियाँ सुगमतापूर्वक सम्मेलन के विषय में जान सकें।

पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नंदलाल रूंगटा ने समाज की सभी संस्थाओं को साथ लेकर काम करने पर बल देते हुए कहा कि इससे समाज –सुधार, सेवाकार्यों सहित हर क्षेत्र में मदद मिलेगी। उन्होंने सलाह दी कि सम्मेलन को अपने स्थानीय शाखाओं के माध्यम से केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर स्तर तक पहुँचाने का प्रयास करना चाहिए। श्री रूंगटा ने कहा कि जिन छात्र –छात्राओं को सम्मेलन के उच्च शिक्षा कोष से अनुदान दिया गया है , उन्हें सम्मेलन के साथ जोड़ने का प्रयास होना चाहिए। साथ ही, जो भली-भांति स्थापित हो गये हों, उन्हें उच्च शिक्षा कोष के भावी आवेदकों का सहयोग करना चाहिए जो उनका नैतिक दायित्व है।

निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष सराफ ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में गरीब लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराना अत्यंत पुण्य का कार्य है। उन्होंने कहा कि यँ तो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार है, किन्तु कोरोनाजन्य कारणों से आज सेवाकार्य की महता बढ़ गई है। वर्तमान समय में टीकाकरण पर जोर रखने को आवश्यक बताते हुए उन्होंने कहा कि अपने अनुष्ठानों में फिजूलखर्ची के बजाय समाजहित के इन कार्यों में सहयोग करना धन का सदुपयोग है।

प्रांतीय अध्यक्षों सर्वश्री महेश जालान (बिहार), नन्द किशोर अग्रवाल (पश्चिम बंग), राजकुमार पुरोहित (महाराष्ट्र), अशोक कुमार मूंधड़ा (तमिलनाडु), ओमप्रकाश खण्डेलवाल (पूर्वोत्तर), डॉ. सुभाष अग्रवाल (कर्नाटक), लक्ष्मीपत भूतोड़िया (दिल्ली) एवं झारखंड के महामंत्री श्री पवन शर्मा ने अपने-अपने प्रांतों की गतिविधियों और सेवाकार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्षों श्री भानीराम सुरेका एवं श्री पवन कुमार सुरेका, सर्वश्री जुगल किशोर मारू, राजकुमार केडिया, दिनेश जैन, आत्माराम सोन्थलिया, शिव कुमार लोहिया, नंदलाल सिंघानिया, पवन शर्मा एवं श्रीमती सुषमा अग्रवाल ने भी अपने संक्षिप्त विचार रखे।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पवन गोयनका ने अपने प्रभार के प्रान्तों दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं उत्तराखंड के कार्यकलापों के विषय में संक्षेप में बताया तथा धन्यवाद-ज्ञापन किया। इसके साथ ही सभा सम्पन्न हुई।

राष्ट्रीय अध्यक्ष

राष्ट्रीय महामंत्री